



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 805]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2016/अग्रहायण 1, 1938

No. 805]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2016/AGRAHAYANA 1, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2016

सं. 50/2016-सेवा कर

सा.का.नि. 1082(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के खंड (ख) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 65ख के खंड (55), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 3 और सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड सा.का.नि. 648(अ), दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के तहत प्रकाशित अधिसूचना सं. 20/2014-सेवाकर दिनांक 16 सितम्बर, 2014 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, परंतुक के बाद निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा:-

बशर्ते कि यदि ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस एक्सेस या रिट्रीबल सर्विसेज को ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया है या किए जाने के लिए सहमति दी गई है, जो कि किसी गैर-कर वाले भू-क्षेत्र में रहता है और ऐसी सेवा को गैर निर्धारित ऑनलाइन प्राप्त कर्ता द्वारा प्राप्त किया गया है, तो वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) के अध्याय 5 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत तालिका 3 के क्रम संख्या 23 के आमुख स्तंभ 2 में निर्दिष्ट अधिकारी तथा उसके सभी अधीनस्थ अधिकारियों के अलावा उक्त तालिका के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी और उसके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी, को अधिकार नहीं होगा।

**स्पष्टीकरण:-** इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए, -

- (क) “ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस तक पहुंच या रिट्रीवल सर्विसेज” का अर्थ वही होगा जो इसके लिए सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2 के उपनियम 1 के उपवाक्य (गगघ) में दिया गया है;
- (ख) “गैर-निर्धारित ऑन लाइन प्राप्तकर्ता का अर्थ वही है जो सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2 के उप-नियम 1 के उपवाक्य (गगखक) में इसके लिए दिया गया है।”

[फा. सं. 354/149/2016-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

**नोट:** मूल नियम सा.का.नि. संख्या 648(अ) दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के तहत अधिसूचना सं. 20/2014-सेवा कर दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्या 44(अ), दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 1/2015- सेवा कर दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अन्तर्गत अंतिम बार संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2015

**No. 50/2016-Service Tax**

**G.S.R. 1082(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with clause (55) of section 65B of the Finance Act 1994 (32 of 1994), rule 3 of the Central Excise Rules, 2002 and rule 3 of the Service Tax Rules, 1994, the Central Board of Excise and Customs hereby makes further amendments in the notification No. 20/2014-Service Tax, dated the 16<sup>th</sup> September, 2014, published vide G.S.R. number 648(E), dated the 16<sup>th</sup> September, 2014, namely :-

In the said notification, after the proviso, the following shall be inserted, namely:-

“Provided further that in case of online information and database access or retrieval services provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory and received by a non-assesse online recipient, no officer specified in column (2) of the Table 3 and no officer subordinate to him, other than the officer specified in column (2) against S. No (23) of the said Table and all the officers subordinate to him, shall have the powers under Chapter-V of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) and the rules made thereunder.

*Explanation.*- For the purposes of this notification,-

- (a) “online information and database access or retrieval services” has the same meaning as assigned to it in clause (ccd) of sub-rule (1) of rule 2 of the Service Tax Rules, 1994;
- (b) “non-assesse online recipient” has the same meaning as assigned to it in clause (ccba) of sub-rule (1) of rule 2 of the Service Tax Rules, 1994.”

[F. No. 354/149/2016-TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

**Note:-**The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 20/2014 - Service Tax, dated the 16<sup>th</sup> September, 2014, *vide* number G.S.R. 648(E), dated the 16<sup>th</sup> September, 2014 and last amended *vide* notification No. 1/2015 - Service Tax, dated the 20<sup>th</sup> January, 2015 *vide* number G.S.R. 44(E), dated the 20<sup>th</sup> January, 2015.